



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 327) पटना, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

26 मार्च 2014

सं0 बी1-3-58/2014-16—बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक, कोशी स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत शिक्षक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2014 के अवसर पर मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों एवं वैकल्पिक दस्तावेजों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग का आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2014/एस०डी०आर०(परिषद्) (बिहार) दिनांक 19.03.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हुसैन यूसुफ रिजवी,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-110001 दिनांक 19 मार्च, 2014

सं० 3/4/आई.डी./2014/एस0डी0आर0(परिषद)(बिहार)—(1) यतः निर्वाचन आयोग, वर्ष 2000 से लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में विशिष्ट दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों के लिए अनिवार्य पहचान की नीति अपनाता रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-62 के अधीन असली निर्वाचक के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35 (3) और 37 (2) (ख) के उपबन्धों का ध्यान में रखते हुए आयोग निदेश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचकों को मतदान केन्द्र पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या अन्य विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या उनके द्वारा मना करने की स्थिति में उन्हें मतपत्र देने या मतदान करने की अनुमति देने से रोका जा सकता है; और

3. यतः निर्वाचकों की पहचान तथा प्रतिरूपण के विरुद्ध सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में उक्त उपबन्ध स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों पर भी समान रूप से लागू होगा और क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक भी होते हैं, उन्हें उनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिए जा सकते हैं।

4. अतः अब, सभी प्रासांगिक तथ्यों तथा विधि तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखने के बाद, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निदेश देता है कि बिहार राज्य में पटना खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, और सारण खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, द्विवार्षिक निर्वाचन में सभी निर्वाचकों को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इस पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा जब उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से बिहार राज्य में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अधिसूचित विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए, मत डालने मतदान केन्द्र पर आयेंगे। तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। उन्हें निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करनी होगी:-

- (1) पासपोर्ट
- (2) वाहन-चालक (ड्राइविंग) लाइसेंस
- (3) आयकर पहचान (पी.ए.एन.) पत्र
- (4) शैक्षणिक संस्थान जिसमें संबंधित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक काम कर रहा हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र।
- (6) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का मूल प्रमाणपत्र।
- (7) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र।

भवदीय,
के०एफ० विल्फ्रेड,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 19th March, 2014

No.3/4/ID/2014/SDR (Council) (BR)—Whereas, the Election Commission has been following the policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under section 62 of the Representation of the people Act, 1951 more effective; and

2. Whereas, keeping in view the provisions of Rules, 35 (3) and 37 (2)(b) of the Conduct of Election Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to House of people and Legislative Assemblies shall produce their Electoral photo Identity Cards or other specified documents at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Election Photo Identity Cards or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and

3. Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against personation are equally applicable at elections from Graduates' and Teachers' Constituencies and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they would have been supplied with Electoral Identify Cards as electors in their respective Assembly Constituencies.

4. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors at the biennial elections in Patna Graduates' Darbhanga Graduates' Tirhut Graduates' Kosi Graduates' Patna Teachers', Darbhanga Teachers', Tirhut Teachers' and Saran Teachers' in the State of Bihar, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the biennial elections to the Bihar Legislative Council from the said Constituencies, notified on 26th February, 2014. However, those electors who are not able to produce EPICs, will have to establish their identity, by producing any of the following alternative documents:-

- (i) Passport.
- (ii) Driving License.
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Card.
- (iv) Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Graduates' Constituency may be employed.
- (v) Certificate of Degree/Diploma issued by University, in Original.
- (vi) Certificate of Physical Handicap issued by Competent Authority, in Original.
- (vii) Service identity card issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses.

Yours faithfully,
K.F. WILFRED,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 327-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>